

**प्रेस विज्ञप्ति**

**जनपद बस्ती**

**दिनांक 01.11.2021**

**थाना सोनहा पुलिस, साइबर सेल व सर्विलान्स सेल मय पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा विभिन्न बीमा कम्पनियों के फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर करोड़ों रूपयों की ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सदस्य को किया गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक सोनहा श्री रामकृष्ण मिश्र मय पुलिस टीम द्वारा थाना सोनहा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 195/2021 धारा 420/406 भा०द०वि० से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम 103 ढाका विलेज गली न० 1 जीटीबी नगर दिल्ली को बड़ेबन थाना कोतवाली क्षेत्र से आज दिनांक 01.11.2021 को समय करीब 08.05 बजे बड़ेबन के निकट, थाना कोतवाली जनपद बस्ती से 4730 रुपया नगद,01 अदद मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया ।

बरामदगी के आधार पर थाना सोनहा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 195/2021 धारा 420/406 भा०द०वि० में धारा 411,34 भा०द०वि० की बढ़ोत्तरी कर मा० न्यायालय बस्ती रवाना किया गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-**

1.राहुल कुमार पुत्र अनील कुमार नि० 103 ढाका विलेज जीटीबी नगर नार्थ वेस्ट दिल्ली ।

## बरामदगी का विवरण:-

1. 4730 रुपया नगद ।
2. 01 अदद मोबाइल फोन ।

## घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक- 25.09.2021 को श्री हरिहर प्रसाद थाना सोनहा जनपद बस्ती ने तहरीरी सूचना दिया कि माह जुलाई को उसके मोबाइल पर फोन आया कि मैं एसबीआई बीमा कस्टमर केयर अधिकारी बोल रहा हूँ आप का बीमा का कलेम पास हुआ है और उसने मुझे अपनी बातों में फंसा कर मुझसे कई बार में 4,11499 रुपये को गोलोबल सर्विसेज के खाते में भेजवा लिया जिसके आधार पर थाना सोनहा पर मु0अ0सं0 195/2021 धारा 420,406 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही थाना सोनहा पुलिस द्वारा की जा रही थी ।

## पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम लोग अपना एक संगठित गिरोह चलाते है । टेली कालिंग करवाकर भोले भाले लोगो से बन्द बीमा का पैसा वापस कराने की बात कहकर उनको मिच्योरिटी दिलाने के नाम पर ठगी करते है तथा ठगी से कमाये गये रुपयो को फर्जी फर्म बनाकर उन फर्म के नाम पर खुलवाये गये खातो में पैसा मगवाता लेते हैं । इस काम में मेरा साथी मनोज कुमार भी साथ देता था। ठगी से प्राप्त किये पैसे को हमलोग आपस में बाट लेते है। हम लोगो का यह गिरोह ऑनलाइन सक्रिय होकर पूरे देश में कही से भी फोन करने वाले व्यक्तियों को अपने झांसे में लेकर ऑनलाइन ठगी का कार्य करते है। हमारी गिरोह द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों के साथ अबतक लगभग करोड़ो रुपयों की ऑनलाइन ठगी की जा चुकी है। यह कार्य हम लोगों द्वारा विगत 2 वर्ष से किया जा रहा है ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक सोनहा श्री रामकृष्ण मिश्र जनपद बस्ती ।
2. सर्विलान्स प्रभारी श्री विजय सिंह जनपद बस्ती ।
3. उ०नि० श्री रामदेव थाना सोनहा जनपद बस्ती ।
4. का० मोहन यादव, का अभिषेक त्रिपाठी साइबर सेल बस्ती ।
5. हे०का० सुरेन्द्र यादव, का० रितेश साहनी थाना सोनहा जनपद बस्ती ।